



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं० पटना 572) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2023

सं० 7/स्था0-04-02/2017-13370/सा0प्र0वि0 —भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2023” बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना ।-

- (1) यह नियमावली “बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2023” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- (4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जिसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया हो।

2. “बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019” के नियम-10ए के बाद नियम-10बी का अंतःस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-10ए के बाद नियम-10बी निम्नवत् अंतःस्थापित किया जायेगा:-

“10बी-इस नियमावली में इसके विरुद्ध प्रावधान होते हुए भी पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किये गये हों, को यह चयन का अधिकार होगा कि वे अपने स्वविवेक से पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत दो स्थायी कर्मियों को घरेलू सहायता हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति होने तक रख सकेंगे।”

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
गुफ़रान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

The 14th July 2023

No-7/Ashta.-04-02/2017-13370/ GAD —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court (Amendment) Rules, 2023:-

1. *Short title, extent, commencement and application.-*

- (1) These Rules may be called the 'Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the High Court (Amendment) Rules, 2023'.
- (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
- (3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- (4) The Rules shall apply to a person who has held office either as a Chief Justice or as a Judge of the Patna High Court.

2. *After Rule-10A of The Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court Rules, 2019 Rule 10B shall be inserted as follows:-*

“10B-Notwithstanding anything to the contrary in these Rules, a former Chief Justice or Justice of Patna High Court who has been elevated to the Hon'ble Supreme Court will have the choice to keep two permanent employees of Patna High Court as domestic help till their retirement from the Hon'ble Supreme Court.”

By order of the Governor of Bihar

GHUFRAN AHMAD,

Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 572-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>